

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2017/चैत्र 8, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 445
No.128]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2017/CHAITRA 8, 1939	[N.C.T.D. No. 445

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्य चुनाव आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 मार्च, 2017

सं. फा. एसईसी/दि.नि.नि./सा.चुना./2017/8733.—आयोग की अधिसूचना संख्या सं. फा. एसईसी/दि.नि.नि./सा.चुना./2017/6205 दिनांक: 16 फरवरी, 2017 में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप, दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा यथा संशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 7ख के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त हुई शक्तियों के अनुसरण में, मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से नीचे तालिका के कॉलम संख्या-3 में दर्शाये गये अधिकारी को उनके सामने कॉलम-4 में दर्शाये गये दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के वार्डों के लिये उनके कार्यालय के पते में परिवर्तन सहित मतदाता पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करता हूँ। यह अधिकारी दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) नियमावली, नियम 7 के प्रावधानों के अन्तर्गत दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के आगामी आम चुनावों के लिए उनके सामने दर्शाये गये वार्डों के लिए रिटर्निंग अधिकारी एवं संमीक्षा अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किए जाते हैं।

तालिका

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

वार्ड नम्बर	वार्ड का नाम	पिछली प्रविष्टि	स्थानापन्न संशोधित प्रविष्टि
1	2	3	4
70-द	छतरपुर	श्री अमर लाल मदान	श्री अमर लाल मदान
71-द	सैद-उल-अजीब	वैटो(वार्ड-100)	वैटो(वार्ड-100)
72-द	भाटी	व्यापार और कर विभाग, राष्ट्रीय	व्यापार और कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी
73-द	आया नगर	राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,	क्षेत्र दिल्ली सरकार,

		व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली-110002.	एस डी एम सी कन्या प्राथमिक विद्यालय, छत्तरपूर मन्दिर, दिल्ली-110074
--	--	--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

संजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त

STATE ELECTION COMMISSION NOTIFICATION

Delhi, the 28th March, 2017

No: F. SEC/MCD/General Election/2017/8733.—In partial modification of the Commission's Notification No. F./SEC/MCD/General Election/2017/6205 dated 16/02/2017. I, S. K. Srivastava, State Election Commissioner in pursuance of the powers conferred under section 7B of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, and under the provision of Rule 7 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012, hereby appoint, in consultation with Govt. of NCT of Delhi, the officer shown in column No. 3 of the table below, as change in their Office Address Electoral Registration Officer for the wards of South Delhi Municipal Corporation of Delhi, shown in column No. 4 against. The Officer so appointed as Electoral Registration Officer is also appointed as a Returning Officer-cum-Scrutinizing Officer for the wards shown against each, under the aforesaid Rules, in connection with the forthcoming General Election to South Delhi Municipal Corporation as under:-

**Table
South Delhi Municipal Corporation**

Ward No	Ward Name	Previous entry	Revised address
1	2	3	4
070-S	CHHATARPUR	Sh. Amar Lal Madan VATO (Ward 100), Department of Trade & Taxes, Govt. of NCT of Delhi, Vyapar Bhawan, IP Estate, New Delhi-110002.	Sh. Amar Lal Madan VATO (Ward 100), Department of Trade & Taxes, Govt. of NCT of Delhi, SDMC Girls Primary School, Chhatarpur Mandir, Delhi - 110074
071-S	SAID-UL-AJAIB		
072-S	BHATI		
073-S	AYA NAGAR		

S.K. SRIVASTAVA, State Election Commissioner